

SURVEY OF INDIA  
भारतीय सर्वेक्षण विभाग

गुजरात, दमन व दीव, भूस्थानिक आंकड़ा केंद्र  
GUJARAT, DAMAN & DIU, G.D.C.

सर क्रीक भवन

**Sir Creek Bhavan**

सेक्टर - 10-A, बिरसा मुण्डा भवन के सामने

Sector 10 - A, Opp: Birsa Munda Bhavan

पोस्ट बॉक्स न. 1, गांधीनगर - 382 010

फैक्स व दूरभाष: (079) 23240451, 23240452

(079) 23237518

Telefax : ((079) 23240451, 23240452

(079) 23237518

E-mail : [gdd.gdc soi@gov.in](mailto:gdd.gdc soi@gov.in)



No. 1571 / 13 - A - 12-3 (Guest House)

Dt. 14 - 07 - 2021

सूचना / Notice

विषय :- गांधीनगर स्थित " सर्वे गेस्ट हाउस " मे कक्ष के आबंटन के नियम व शर्त तथा दरों के संबंध मे ।

Sub: Rates, Terms & Conditions for allotment of "Survey Guest House "Gandhinagar Reg.

भारतीय सर्वेक्षण विभाग के गुजरात दमन व दीव भूस्थानिक आँकड़ा केंद्र , गांधीनगर के सेक्टर 10 - ए मे स्थित ' सर्वे गेस्ट हाउस ' के कक्ष आबंटन के नियम / शर्त व दरों से संबन्धित विवरण अनुलग्नक ' A ' के रूप मे संलग्न है । अनुलग्नक मे उल्लेखित नियम , शर्त , दरें इत्यादि गठित समिति द्वारा प्रस्तावित व निदेशक द्वारा अनुमोदित है । उल्लेखित नियम, शर्त व दरें सूचना जारी करने की तिथि से प्रभावित होंगी ।

The terms & conditions for Allotment of Rooms and Rates of 'Survey Guest House 'located in Survey of India, GD & D GDC, Sector 10 - A Gandhinagar is enclosed as Annexure 'A 'The terms & conditions, Rates quoted in Annexure 'A' are proposed by board and approved by Director. It will be effective from the date of issue of Notice.

*Anuk Majed*  
( ए . के . छाजेड ) 14.7.21

संलग्नक : अनुलग्नक ' A ' ।

अधिकारी सर्वेक्षक  
प्रभारी सम्पदा अनुभाग  
कृते निदेशक

प्रतिलिपि :


1. भारत के महा सर्वेक्षक देहरादून को सूचनार्थ ।
2. प्रभारी विभागीय वेब साइट को वेब साइट पर अपलोड करने हेतु [admn.soi@gov.in](mailto:admn.soi@gov.in)
3. अपर महा सर्वेक्षक प. क्षेत्र जयपुर सहित समस्त अपर महा सर्वेक्षक कार्यालयों को सूचनार्थ ।
4. समस्त निदेशालयों को सूचनार्थ ।
5. प्रभारी 'सर्वे गेस्ट हाउस' को सूचनार्थ ।
6. कार्यालय के सूचना पट्ट पर सूचनार्थ ।





**GENERAL TERMS AND CONDITIONS FOR RESERVATION ENTITLEMENT AND RATES FOR  
THE GUEST HOUSE OF THE GUJARAT DAMAN & DIU GDC SURVEY OF INDIA  
GANDHINAGAR**

1. Normally No Person will be allowed to stay in GH for more than 5 days.
2. Application will be entertained at least 4 to 5 days before of booking date.
3. Normally two people with two children will be allowed to stay in a suite or room except for triple bed room.
4. Reservation in guest house will not be done for officers posted in the same station. However Officers / Employees coming on transfer / posting reservation in Guest House will be allowed, if applied through proper channel before 4 to 5 days.
5. Narmada & Sabarmati VIP suits of the GH will be allotted to the officer of the pay Level 13 and above.
6. Cleaning & Other services charges @ Rs. 80/- per day per Room will be charged separately.
7. In triple bed room only double bed charges will be charged in case of single or double occupancy, but in triple occupancy Rs. 100/- extra will be charged.
8. Liquor/smoking is strictly prohibited in the room of GH.
9. Check out will be in 24 hrs.
10. Normally Check in time will be 06:00 hrs. to 22:00hrs, else it will be allowed with special permission of competent authority .
11. The priority criteria for reservation will be as below :
  - (i) S O I Officer on Government Duty
  - (ii) S O I Officer on Leave / Private tour / retired S O I employee / Guest or Family of SOI Employee
  - (iii) Central Govt. Officers on duty / on leave / Retired person / Family / Guest (Other than Survey of India )
  - (iv) PSU / State Govt. Officer / Employee on duty / on leave / Retired person
12. All the bills should be cleared before vacating the Guest House. Any damage to the property of the Guest room will born by the Guest. Photo ID must be enclosed with application for booking of room. Original will be verified during check in time. One of the following documents is required for ID.
  - (i) Identity card
  - (ii) Adhar Card
  - (iii) Voter ID
  - (iv) Pan Card
  - (v) Driving License
  - (vi) Passport
13. Allotment of Rooms in GH will be the sole discretion of the Director GD&D GDC and his decision will consider as final.
14. The following rate will be applicable w.e.f. 15 - 07 - 2021.
15. Rates for the room of Guest House will be as follows.

SI	Category	A/c Room No. 1 to 4	VIP Narmada & Sabarmati
1	For S O I / D S T Officers / Employee serving / Retired person and their family / Guest	Rs. 200	Rs. 350
3	Central Government Officers / Employee on duty / on leave / Retired person and their Family & Guest (Other than Survey of India )	Rs.400	Rs. 700
4	PSU / State Govt. Officer ( Serving / Retired )	Rs.600	Rs. 1400

  
(P D PARMAR)R K Div. I  
Member / Secretary

  
(A.K. CHHAJED)O. S.  
Member

  
(B. M. PARMAR) O. S.  
Chairman